



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2878]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938

No. 2878]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

का. आ. 3666(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, उसकी यह राय है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	प्रकार	किस्म	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	घीया	सलैक्शन पी-6 (पूसा संतुष्टी)	ज़ोन-IV अर्थात् पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और ज़ोन VII अर्थात् मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
2.	घीया	टी एन ए यू बौटल गार्ड	तमिलनाडु

		हाईब्रिड सी ओ 1	
3.	घीया	एच बी जी एच-35 (हिसार बोट्टल गार्ड हाईब्रिड 35)	हरियाणा
4.	घीया	जी एच-22 (घीया हिसार 22)	हरियाणा
5.	लौकी (घीया)	पूसा सब्जी पेठा (डी ए जी- 12)	कर्नाटक, तमिलनाडु और खरीफ मौसम के दौरान केरल
6.	तुरई	काशी शिवानी (वी आर पी जी-27)	पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड
7.	तुरई	पूसा नूतन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
8.	करेला	डी बी65-54	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
9.	करेला	डी बी65-34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
10.	चिचिण्डा	पी एल आर (एस जी) 2 (व्हाईट शोर्ट)	तमिलनाडु
11.	आलू	कुफरी मोहन (एम एस/5- 1543)	गंगा के मैदान (उत्तरी और पूर्वी मैदानी क्षेत्र)
12.	शकरकंद	स्वीट पोटेटो सी ओ 5	तमिलनाडु
13.	प्याज	एन एच आर डी एफ रैड-4 (एल-744)	ज़ोन-III (वाराणसी, कानपुर, समस्तिपुर, कल्याणी और इम्फाल)
14.	प्याज	भीमा सुपर (आर एंड एन)	छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु
15.	प्याज	सी ओ (ओ एन) 5	तमिलनाडु
16.	प्याज	पूसा रिद्धी (सलैक्शन - 383)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
17.	प्याज	हिसार ओनियन 4	हरियाणा
18.	गुच्छन प्याज	पूसा सौम्या (सलैक्शन बी ओ-4)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
19.	अदरक	यमुना सफेद-9 (जी-386)	ज़ोन-II (जम्मू, लुधियाना, दिल्ली, करनाल, हिसार और दुर्गापुर)
20.	गार्डन मटर	पूसा श्री(जी पी-17)	उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश
21.	बैंगन	डी बी एल-2	जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दादरा और नागर हवेली और दमन और दियू

22.	बैंगन	गुजरात जूनागढ़ त्रिंजल हाईब्रिड -4 (जी जे बी एच-4)	गुजरात
23.	बैंगन	गुजरात जूनागढ़ लौंग त्रिंजल-4 (जी जे एल बी-4)	गुजरात
24.	गोभी	पूसा अश्विनी (डी सी 31) (सलैक्शन- 167)	उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र (जून से अक्तूबर)
25.	टमाटर	काशी आदर्श (बी आर टी - 1201)	टमाटर
26.	टमाटर	अरका सम्राट (आई आई एच आर-एच-240)	टमाटर
27.	मेथी	अजमेर फैन्ग्रिक-3 (ए एफ जी-3)	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा
28.	मेथी	अजमेर फैन्ग्रिक-4 (ए एफ जी-4)	राजस्थान
29.	मेथी	प्रताप राज मेथी	राजस्थान
30.	अजवाईन	अजमेर अजवाईन-93 (ए ए-93)	राजस्थान
31.	भारतीय सोया बीज	ए डी-2 (अजमेर दिल-2) (ए डी-2)	राजस्थान
32.	सोया बीज	गुजरात आनंद दिल सीड-1 (जी ए डी-1)	गुजरात
33.	अजमेर धनिया -1	अजमेर कोरिएनडर -1 (ए सी आर1)	राजस्थान
34.	धनिया	गुजरात दांतेवाडा (लीफी कोरिएनडर -1) (जी डी एल सी-1)	गुजरात
35.	सेम	गुजरात जूनागढ़ इंडियन बीन-2 (जी जे आई बी-2)	गुजरात
36.	क्लस्टर बीन	एम डी यू 1 क्लस्टर बीन	तमिलनाडु
37.	लीमा बीन	स्वरना पोषन	झारखंड
38.	फेबा बीन	एच ए बी एफ बी-41 (स्वरना सफल)	झारखंड
39.	सेम	पूसा उदित (सलैक्शन -1)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
40.	भिंडी	भिंडी हाईब्रिड सी ओ 4	तमिलनाडु
41.	हल्दी	सीओ 2	तमिलनाडु
42.	नींबू	लाईम बी आर एम-1	तमिलनाडु

43.	चीकू	पी के एम (एस ए) 5	तमिलनाडु
44.	कसावा	तेपिओका वाई टी पी 1	तमिलनाडु
45.	चौलाई	अमारनथ्स पी एल आर 1 (ए 8)	तमिलनाडु
46.	कटहल	पी एल आर (जे) 2 (ए एच 2)	तमिलनाडु
47.	मिर्च	परभानी मिर्ची (पी बी एन सी-1)	महाराष्ट्र
48.	खीरा	डी सी - 82 (पूसा बरखा)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
49.	गोभी	पूसा कार्तिकी (डी सी 23000)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
50.	गाजर	पूसा वसहदा हाईब्रिड (आई पी सी एच सी 1)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
51.	गाजर	पूसा रुधिरा (आई पी सी 122)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
52.	गाजर	पूसा असिता (आई पी सी 126)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
53.	गाजर	गुजरात दंतेवाढा कैरट-1 (जी डी सी-1)	गुजरात
54.	मूली	पूसा रैडिश (आई पी सी डब्लू डब्लू 1)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
55.	मूली	पूसा गुलाबी (आई पी आर पी आई पी आई)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
56.	मूली	पूसा जामुनी (आई पी सी पी यू पी यू)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
57.	समर स्कैश	डीएस-8 (पूसा पसंद)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

[फा.सं. 3-50/2016-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2016

S.O. 3666(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of the seeds shall be the notified varieties to be sold for purposes of agriculture for the States mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

TABLE

S. No.	Crop	Variety	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bottle Gourd	Selection P-6 (Pusa Santushti)	Zone IV i.e. Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand and Zone VII, i.e., Madhya Pradesh and Maharashtra.
2.	Bottle Gourd	TNAU Bottle Gourd Hybrid CO 1	Tamil Nadu
3.	Bottle Gourd	HBGH-35 (Hisar Bottle Gourd Hybrid 35)	Haryana
4.	Bottle Gourd	GH-22 (Ghiya Hisar 22)	Haryana
5.	Ash Gourd	Pusa Sabzi pettha (DAG-12)	Karnataka, Tamil Nadu and Kerala during kharif season.
6.	Ridge Gourd	Kashi Shivani (VRPG-27)	Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand
7.	Ridge Gourd	Pusa Nutan	NCT of Delhi
8.	Bitter Gourd	DB65-54	NCT of Delhi
9.	Bitter Gourd	DB65-34	NCT of Delhi
10.	Snake Gourd	PLR(SG) 2 (White Short)	Tamil Nadu
11.	Potato	Kufri Mohan (MS/5-1543)	Indo-gangetic plains (Northern and Eastern plains)
12.	Sweet Potato	Sweet Potato CO 5	Tamil Nadu
13.	Onion	NHRDF Red-4 (L-744)	Zone-III (Varanasi, Kanpur, Samastipur, Kalyani and Imphal)
14.	Onion	Bhima Super (R&N)	Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Jammu, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu
15.	Onion	CO (On) 5	Tamil Nadu
16.	Onion	Pusa Riddhi (Sel-383)	NCT of Delhi
17.	Onion	Hisar Onion 4	Haryana
18.	Bunching Onion	Pusa Soumya (Sel. BO-4)	NCT of Delhi
19.	Garlic	Yamuna Safed-9 (G-386)	Zone-II (Jammu, Ludhiana, Delhi, Karnal, Hissar and Durgapura)
20.	Garden Pea	Pusa Shree (GP-17)	Uttarakhand and Himachal Pradesh.
21.	Brinjal	DBL-2	Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
22.	Brinjal	Gujarat Junagarh Brinjal Hybrid-4 (GJBH-4)	Gujarat
23.	Brinjal	Gujarat Junagadh Long Brinjal-4 (GJLB-4)	Gujarat
24.	Cauliflower	Pusa Ashwini (DC 31) (Sel.167)	North Indian Plain (June to October)
25.	Tomato	Kashi Adarsh (VRT -1201)	Madhya Pradesh and Maharashtra
26.	Tomato	Arka Samarat (IHR-H- 240)	Karnataka, Tamil Nadu and Kerala
27.	Fenugreek	Ajmer Fenugreek-3 (AFg-3)	Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana
28.	Fenugreek	Ajmer Fenugreek-4 (AFg-4)	Rajasthan
29.	Fenugreek	Pratap Raj Methi	Rajasthan
30.	Ajwain	Ajmer Ajwain-93 (AA-93)	Rajasthan
31.	Indian Dill Seed	AD-2 (Ajmer Dill-2) (AD-2)	Rajasthan
32.	Dill Seed	Gujarat Anand Dill Seed-1 (GAD-1)	Gujarat
33.	Ajmer Coriander-1	Ajmer Coriander-1(ACr-1)	Rajasthan
34.	Coriander	Gujarat Dantewada (Leafy coriander-1) (GDLC-1)	Gujarat
35.	Indian Bean	Gujarat Junagarh Indian Bean-2 (GJIB-2)	Gujarat
36.	Cluster Bean	MDU1 Cluster bean	Tamil Nadu
37.	Lima Bean	Swarna Poshan	Jharkhand
38.	Faba Bean	HAVFB-41 (Swarna Safal)	Jharkhand
39.	Broad Bean	Pusa Udit (Sel-1)	NCT of Delhi
40.	Okra	Bhendi Hybrid CO 4	Tamil Nadu
41.	Turmeric	CO 2	Tamil Nadu
42.	Lime	Lime VRM-1	Tamil Nadu

43.	Sapota	PKM(Sa) 5	Tamil Nadu
44.	Cassava	Tapioca YTP 1	Tamil Nadu
45.	Amaranthus	Amaranths PLR 1 (A8)	Tamil Nadu
46.	Jack Fruit	PLR (J) 2 (AH 2)	Tamil Nadu
47.	Chilli	Parbhani Mirchi (PBNC-1)	Maharashtra
48.	Cucumber	DC-82 (Pusa Barkha)	NCT of Delhi
49.	Cauliflower	Pusa Kartiki (DC 23000)	NCT of Delhi
50.	Carrot	Pusa Vashda hybrid (IPC HC1)	NCT of Delhi
51.	Carrot	Pusa Rudhira (IPC 122)	NCT of Delhi
52.	Carrot	Pusa Asita (IPC 126)	NCT of Delhi
53.	Carrot	Gujarat Dantewada Carrot-1 (GDC-1)	Gujarat
54.	Radish	Pusa Radish(IPC WW1)	NCT of Delhi
55.	Radish	Pusa Gulabi (IPR PiPi)	NCT of Delhi
56.	Radish	Pusa Jamuni (IPC PuPu)	NCT of Delhi
57.	Summer Squash	DS-8 (Pusa Pasand)	NCT of Delhi

[F. No. 3-50/2016-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.